



# HAMIRPUR POLICE



दिनांक-07/01/2021

थाना जरिया

## अवैध असलहा फैक्ट्री सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 01.01.2021 को थाना जरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धगवां निवासी महेन्द्र कुमार पुत्र प्यारेलाल अहिरवार ने अपने जन्म दिवस एवं नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने घर के दरवाजे पर दावत का आयोजन किया था एवं रात्रि में नृत्य करने वालियों को भी बुलाया था। उसी रात्रि नृत्य के दौरान ग्राम धगवां का ही रहने वाला महेश पुत्र रतन सिंह अहिरवार नशे की हालत में स्टेज पर चढकर अवैध तमंचो लहराने लगा जिसका वही पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने पर थाना जरिया पुलिस द्वारा उपरोक्त महेश नामक व्यक्ति की शिनाख्त की गई और तत्परता पूर्वक महेश को मय एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व दो अदद जिंदा कार0 315 बोर के गिरफ्तार कर थाना जरिया पर मु0अ0सं0 03/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाई की गई। वीडियो के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि नृत्य के समय महेश उपरोक्त के हाथ में चार तमंचे थे जो कि स्टेज के पास बैठे हुये ही तीन अन्य लोगो द्वारा महेश को दिये जा रहे थे। जिनको भी ज्ञात कर लिया गया है। जिनके नाम व पता 1)मिथुन पुत्र सनेही बसोर निवासी ग्राम धगवां 2)हिस्ट्रीशीटर सतेन्द्र पुत्र प्रजापत राजपूत निवासी ग्राम अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर 3)राहुल पाल पुत्र भगवानदास पाल निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर है। दिनांक 07.01.2020 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम अतरौली स्थित मइयादीन के ट्यूबेल पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त राहुल पाल पुत्र भगवानदास पाल निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा 12 बोर का0 के गिरफ्तार किया गया तथा मौके से अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर सतेन्द्र पुत्र प्रजापत राजपूत निवासी ग्राम अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर भागने में सफल हो गया। मौके पर अवैध असलहा एवं असलहा बनाने के उपकरण बरामद हुए। जिस सम्बंध में थाना जरिया पर मु0अ0सं0-04/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राहुल पाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर व मु0अ0सं0-05/21 धारा-05/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1)राहुल पाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर 2)सत्येन्द्र पुत्र प्रजापत निवासी ग्राम अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर के पंजीकृत किया गया।

## बरामदगी का विवरण:-

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1)एक अदद तमंचा 12 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर | 4)एक अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा |
| 2)दो अदद तमंचा 315 बोर                             | 5)दो अदद मिस कारतूस 315 बोर  |
| 3)एक अदद तमंचा 12 बोर                              | 6)तीन अदद खोखा कारतूस        |
|  | 7)शस्त्र बनाने के उपकरण      |

## गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 प्रभुराज सिंह चौकी प्रभारी चण्डौत
- 2.उ0नि0 दारा सिंह थाना जरिया
- 2.का0 प्रिन्स कुमार थाना जरिया
- 3.का0 वेद प्रकाश थाना जरिया
- 4.का0 विपिन निषाद थाना जरिया
- 5.का0 अनिल कुमार राजपूत थाना जरिया

